

**INDIAN SCHOOL SALALAH**  
**2<sup>nd</sup> TERM EXAMINATION, MARCH -2019**  
**2<sup>nd</sup> LANGUAGE HINDI**

**CLASS : V**

**TIME : 2½ Hrs.**

**MAX. MARKS : 40**

**Number of Pages :04**

**Number of questions :17**

.....  
**खण्ड - क**

- |     |   |       |
|-----|---|-------|
| 01. | दो-दो पर्यायवाची शब्द लिखिए-<br>दिन   | 2×½=1 |
| 02. | लिंग बदलिए-<br>पंडित, लेखक  | 2×½=1 |
| 03. | वचन बदलिए-<br>नारी, धातु  | 2×½=1 |
| 04. | विलोम शब्द लिखिए-<br>नरक, बड़ा  | 2×½=1 |
| 05. | निम्नलिखित वाक्यों में 'का,के,की' का उचित प्रयोग कीजिए-<br>क) यह रामू ..... दादीजी हैं।<br>ख) मुकेश ..... घर बड़ा है। | 2×½=1 |
| 06. | निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छाँटकर लिखिए-<br>क) आम मीठे हैं।<br>ख) राम होशियार छात्र है।                    | 2×½=1 |

07. निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए- 2×½=1  
 क) दादाजी दिल्ली से आएगा।  
 ख) मधु गृहकार्य करता है।
08. निम्नलिखित मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए- 1  
 कमर कसना
09. किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए- 4  
 सलालाह में खरीफ़, पेड़ों का महत्त्व
10. चार दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। 4  
 अथवा  
 जंक फूड न खाने का सुझाव देते हुए मित्र को पत्र लिखिए।
11. चित्र देखकर लगभग 25-30 शब्दों में अपने भाव व्यक्त कीजिए- 2



12. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए-  
 केला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। रोज़ एक केला खाना तन-मन को तंदरूस्त रखता है। केला शुगर और फाइबर का स्रोत है। केले में थाइमिन, नियासिन, फालिक एसिड और एमीनो एसिड के रूप में विटमिन ए और बी भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। केले को ऊर्जा (energy) का अच्छा स्रोत माना जाता है। केला ब्लड शुगर को नियंत्रित रखता है और तनाव भी कम करता है।

केले में लौहत्व भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है।

**प्रश्न:-**

क) कौन-सा फल स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है? 1/2

i) आम      ii) चीकू      iii) केला

ख) केले में कौन-कौन से विटामिन पाए जाते हैं? 1/2

i) विटामिन सी और ए      ii) विटामिन ए और बी      iii) विटामिन डी और के

ग) केले में खून की कमी को दूर करने के लिए क्या पाया जाता है? 1/2

i) लौहत्व      ii) जिंक      iii) सोडियम

घ) केला किस बीमारी के लिए अच्छा है? 1/2

i) ब्लड प्रेशर      ii) ब्लड शुगर      iii) बुखार

### खण्ड - ख

13. निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए- 4×1/2=2

क) विद्या रूपी धन ..... से प्राप्त किया जा सकता है।

ख) खून की कमी से होने वाली बीमारी को ..... कहते हैं।

ग) 'हम सब' कवि ने ..... के लिए कहा है?

घ) लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम ..... था।

14. निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए-

काँटों में खिलकर हम सबने

हँस-हँसकर है जीना सीखा

एक सूत्र में बँधकर हमने

हार गले का बनना सीखा।

सबके लिए सुगंध हमारी

हम श्रृंगार धनी-निर्धन के।

**प्रश्न**

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. हमें मुसीबत में कैसे जीना चाहिए?   | 1 |
| 2. फूल हमें क्या संदेश दे रहे हैं?    | 1 |
| 3. हमें सबके साथ कैसा भाव रखना चाहिए? | 1 |

**15. एक वाक्य में उत्तर लिखिए- 3×1=3**

- क) खजूर के पेड़ में क्या कमी है ?  
 ख) महाराजा गंगाधर राव ने किसे गोद लिया ?  
 ग) गाँव कहाँ बसा था?

**16. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए-****4×2=8**

- क) लक्ष्मीबाई का लालन-पालन किस प्रकार हुआ?  
 ख) पंडित परमसुख ने प्रायश्चित का क्या विधान बताया?  
 ग) पेड़ काटने का परिणाम क्या हुआ?  
 घ) रामू की बहू कबरी बिल्ली से घृणा क्यों करती थी?

**17. सहपाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए-****2×2=4**

- क) पेड़ अपने आपको अकेला क्यों महसूस करने लगा?  
 ख) पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या कदम उठाएँगे?

-----

